

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014—आषाढ 27, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्र. 13881-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) को उससे सम्बद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) विधेयक, २०१४

वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रु. १२,९०,०९,००,८२,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ८ सन् २०१४) की अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए, रुपये एक लाख उन्तीस हजार एक करोड़ बयासी हजार होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिये प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	६९,२९,४७,५७,०००	६९,२९,४७,५७,०००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	९१,७६,९९,९६,०००	९१,७६,९९,९६,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	५,४४,१८,३०,०००	३४,८७,४१,०००	५,७९,०५,७१,०००
		पूंजी	६१,८७,०९,०००	०	६१,८७,०९,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	३०,८६,७४,०००	१०,६१,०००	३०,९७,३५,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	४५,०७,०७,६४,०००	७७,८४,०००	४५,०७,८५,४८,०००
		पूंजी	१,०१,३७,०५,०००	०	१,०१,३७,०५,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	४३,६७,४१,०००	५,०१,०००	४३,७२,४२,०००
		पूंजी	१,०२,३०,०००	०	१,०२,३०,०००
०५.	जेल	राजस्व	२,२९,७७,९३,०००	५०,०००	२,२९,७८,४३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०६. वित्त				
	राजस्व	६५,७३,७९,३१,०००	१४,७८,२५,०००	६५,८८,५७,५६,०००
	पूँजी	१,७०,८०,०१,०००	०	१,७०,८०,०१,०००
०७. वाणिज्यिक कर				
	राजस्व	२५,४५,१९,४१,०००	२१,५०,०००	२५,४५,४०,९१,०००
०८. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
	राजस्व	१२,४३,४४,७८,०००	६,६४,००,०००	१२,५०,०८,७८,०००
	पूँजी	२१,६०,००,०००	०	२१,६०,००,०००
०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
	राजस्व	६६,३८,४२,०००	१,००,०००	६६,३९,४२,०००
	पूँजी	२,००,०१,०००	०	२,००,०१,०००
१०. वन				
	राजस्व	२१,२३,३६,००,०००	७५,७०,००,०००	२१,९९,०६,००,०००
	पूँजी	८०,००,००,०००	०	८०,००,००,०००
११. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
	राजस्व	६,१७,४९,४४,०००	७,०२,०००	६,१७,५६,४६,०००
	पूँजी	४,१६,७०,४४,०००	१०,००,०००	४,१६,८०,४४,०००
१२. ऊर्जा				
	राजस्व	३७,०३,७३,७५,०००	१,७०,५०,००,०००	३८,७४,२३,७५,०००
	पूँजी	३०,६१,१८,०५,०००	०	३०,६१,१८,०५,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
	राजस्व	२३,७७,५५,७१,०००	२०,००,०००	२३,७७,७५,७१,०००
१४. पशुपालन				
	राजस्व	६,८२,३९,६२,०००	३,३०,०००	६,८२,४२,९२,०००
	पूँजी	१५,७०,००,०००	०	१५,७०,००,०००
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
	राजस्व	१७,२७,३६,४८,०००	०	१७,२७,३६,४८,०००
	पूँजी	३१,६५,००,०००	०	३१,६५,००,०००
१६. मछली पालन				
	राजस्व	६९,२०,६७,०००	३,००,०००	६९,२३,६७,०००
	पूँजी	३४,९८,०००	०	३४,९८,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१७. सहकारिता	राजस्व	४,६६,४८,६४,०००	१,५०,०००	४,६६,५०,१४,०००
	पूँजी	२,४५,९१,६१,०००	०	२,४५,९१,६१,०००
१८. श्रम	राजस्व	१,४६,१०,२१,०००	२,००,०००	१,४६,१२,२१,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	४०,१४,९६,८४,०००	६१,००,०००	४०,१५,५७,८४,०००
	पूँजी	९५,२५,०१,०००	०	९५,२५,०१,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	४,८७,६४,४२,०००	१,००,००,०००	४,८८,६४,४२,०००
	पूँजी	६,६३,९२,०३,०००	०	६,६३,९२,०३,०००
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	१,७१,६५,४७,०००	१,००,०००	१,७१,६६,४७,०००
	पूँजी	६०,१३,०३,०००	३०,००,०००	६०,४३,०३,०००
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व	३,६१,३६,९७,०००	०	३,६१,३६,९७,०००
	पूँजी	८,२५,७२,०००	०	८,२५,७२,०००
२३. जल संसाधन	राजस्व	८,७२,५७,५८,०००	१०,००,०००	८,७२,६७,५८,०००
	पूँजी	१२,८०,१३,५२,०००	१,००,००,०००	१२,८१,१३,५२,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	११,५१,२९,४४,०००	२,००,००,०००	११,५३,२९,४४,०००
	पूँजी	१६,३२,६१,००,०००	३६,००,००,०००	१६,६८,६१,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	३६,९०,४५,०००	४,००,०५,००,०००	४,३६,९५,४५,०००
	पूँजी	१०,००,०००	०	१०,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	१,३५,८९,७१,०००	०	१,३५,८९,७१,०००
	पूँजी	१,१५,०८,०००	०	१,१५,०८,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	६४,४४,४०,९१,०००	२,९०,०००	६४,४४,४३,८१,०००
	पूँजी	६३,२०,७८,०००	०	६३,२०,७८,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	६७,६६,४३,०००	४०,६४,०००	६८,०७,०७,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१२,४८,६९,४३,०००	८८,७४,१०,०००	१३,३७,४३,५३,०००
		पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	६,९७,३२,०५,०००	७,००,०००	६,९७,३९,०५,०००
		पूंजी	१४,७१,५५,००,०००	०	१४,७१,५५,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	२,६०,०९,०३,०००	०	२,६०,०९,०३,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	२,३३,२०,४५,०००	०	२,३३,२०,४५,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१६,७३,७३,४५,०००	१५,००,०००	१६,७३,८८,४५,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	२,२३,९७,७६,०००	३,००,०००	२,२४,००,७६,०००
३५.	पुनर्वास	राजस्व	७२,०७,०००	५०,०००	७२,५७,०००
३६.	परिवहन	राजस्व	१,२८,०४,०१,०००	४,००,०००	१,२८,०८,०१,०००
		पूंजी	८,५०,०१,०००	०	८,५०,०१,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	८१,०५,८९,०००	०	८१,०५,८९,०००
		पूंजी	८१,००,०१,०००	०	८१,००,०१,०००
३८.	आयुष	राजस्व	४,६०,५६,४६,०००	१०,००,०००	४,६०,६६,४६,०००
		पूंजी	२०,३५,००,०००	०	२०,३५,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२०,२४,३५,२१,०००	१,६०,०००	२०,२४,३६,८१,०००
		पूंजी	४२,९०,००,०००	०	४२,९०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट			
	राजस्व	११,७७,२१,०००	८०,०००	११,७८,०१,०००
	पूंजी	१,१८,१२,००,०००	०	१,१८,१२,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना			
	राजस्व	५५,३४,८६,२३,०००	०	५५,३४,८६,२३,०००
	पूंजी	२८,४८,०१,२७,०००	१५,००,०००	२८,४८,१६,२७,०००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	पूंजी	५,२०,८८,००,०००	०	५,२०,८८,००,०००
४३.	खेल और युवक कल्याण			
	राजस्व	८४,४२,५६,०००	०	८४,४२,५६,०००
	पूंजी	१७,००,०१,०००	०	१७,००,०१,०००
४४.	उच्च शिक्षा			
	राजस्व	१२,०९,०७,१०,०००	५२,००,०००	१२,०९,५९,१०,०००
	पूंजी	४०,०१,०२,०००	०	४०,०१,०२,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
	राजस्व	१,३३,३२,५०,०००	०	१,३३,३२,५०,०००
	पूंजी	४,६९,६२,७६,०००	१०,००,०००	४,६९,७२,७६,०००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी			
	राजस्व	२५,७२,००,०००	०	२५,७२,००,०००
	पूंजी	४,७५,००,०००	०	४,७५,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास			
	राजस्व	४,६२,३०,७१,०००	०	४,६२,३०,७१,०००
	पूंजी	४३,४०,००,०००	०	४३,४०,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास			
	राजस्व	२८,५४,८८,०००	०	२८,५४,८८,०००
	पूंजी	१२,५१,२९,८०,०००	१०,००,०००	१२,५१,३९,८०,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण			
	राजस्व	९५,३०,८८,०००	१,०००	९५,३०,८९,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	४,१४,५३,२६,०००	६,००,०००	४,१४,५९,२६,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	९८,०४,०८,०००	३०,०००	९८,०४,३८,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३१,१६,७१,६४,०००	०	३१,१६,७१,६४,०००
		पूंजी	४४,४५,००,०००	०	४४,४५,००,०००
५३.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	२,६५,५०,१०,०००	०	२,६५,५०,१०,०००
		पूंजी	२०,००,०००	०	२०,००,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१,१३,५०,०१,०००	०	१,१३,५०,०१,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२३,११,५९,०३,०००	१५,००,०००	२३,११,७४,०३,०००
		पूंजी	२,७८,२९,५८,०००	०	२,७८,२९,५८,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	१,९२,२४,४१,०००	०	१,९२,२४,४१,०००
		पूंजी	६,६४,५०,०००	०	६,६४,५०,०००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	३,११,९६,२६,०००	०	३,११,९६,२६,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	३५,६७,०४,९९,०००	०	३५,६७,०४,९९,०००
		पूंजी	२,५०,००,०००	०	२,५०,००,०००
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	३१,९०,००,०००	०	३१,९०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय			
	राजस्व	१८,४८,००,०००	०	१८,४८,००,०००
	पूंजी	२,१३,६०,२२,०००	०	२,१३,६०,२२,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय			
	राजस्व	१,४३,५६,०२,०००	०	१,४३,५६,०२,०००
	पूंजी	३,६९,२०,८६,०००	०	३,६९,२०,८६,०००
६२.	पंचायत			
	राजस्व	१,७१,१३,६३,०००	१,८०,०००	१,७१,१५,४३,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण			
	राजस्व	६८,२०,७१,०००	०	६८,२०,७१,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना			
	राजस्व	३६,०६,४४,९४,०००	०	३६,०६,४४,९४,०००
	पूंजी	२१,९८,११,६१,०००	०	२१,९८,११,६१,०००
६५.	विमानन			
	राजस्व	२१,५१,३१,०००	०	२१,५१,३१,०००
	पूंजी	२,०००	०	२,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व	७,५७,४४,०५,०००	२०,०००	७,५७,४४,२५,०००
	पूंजी	३,८५,०१,०००	०	३,८५,०१,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य— भवन			
	राजस्व	४,६४,५८,९३,०००	५०,००,०००	४,६५,०८,९३,०००
	पूंजी	१,७०,९४,०५,०००	०	१,७०,९४,०५,०००
६८.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	४६,००,५९,०००	०	४६,००,५९,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी			
	राजस्व	१,४५,७८,७५,०००	०	१,४५,७८,७५,०००
	पूंजी	३४,४०,००,०००	०	३४,४०,००,०००
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	राजस्व	१२,५५,००,०००	०	१२,५५,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७१.	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)	राजस्व ५,५०,००,०००	०	५,५०,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व ८६,७२,९७,००० पूंजी ३,९१,२१,०००	० ०	८६,७२,९७,००० ३,९१,२१,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व ४,८३,४१,१५,००० पूंजी ५४,८५,०२,०००	१,०५,००,००० ०	४,८४,४६,१५,००० ५४,८५,०२,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व १,२६,४१,१२,३५,००० पूंजी ५०,००,०००	० ०	१,२६,४१,१२,३५,००० ५०,००,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ५७,२४,०७,११,००० पूंजी २५,००,००,०००	२,३०,०५,००,००० ०	५९,५४,१२,११,००० २५,००,००,०००
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व ६४,५१,७४,००० पूंजी ३०,००,०००	० ०	६४,५१,७४,००० ३०,००,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व २३,७०,६४,२४,००० पूंजी १२,५०,००,०००	६०,००,००० ०	२३,७१,२४,२४,००० १२,५०,००,०००
७८.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व १,४०,००,००,००	०	१,४०,००,००,०००
योग		राजस्व ९,३१,४२,३७,५७,००० पूंजी १,८६,८४,०५,९३,०००	७९,५९,८२,३६,००० ०	१०,११,०२,१९,९३,००० २,७८,९८,८०,८९,०००
वृहद योग :		११,१८,२६,४३,५०,०००	१,७९,७४,५७,३२,०००	१२,९०,०१,००,८२,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारत और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २८ जून, २०१४

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.